

**परिशिष्ट सारणी 2 : समेकित बजटीय स्थिति - एक नज़र में**

(करोड़ रुपए)

| मद                                                                                     | 2003-04<br>(लेखा) | 2004-05<br>(लेखा) | 2005-06<br>(बजट अनुमान)        | 2005-06<br>(संशोधित अनुमान) | 2006-07<br>(बजट अनुमान)        | घटबढ़                  |            |                            |                      |                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                        |                   |                   |                                |                             |                                | कॉ.5 की तुलना में कॉ.3 |            | कॉ.5 की तुलना में कॉ.4     |                      | कॉ.6 की तुलना में कॉ.5     |                      |
|                                                                                        |                   |                   |                                |                             |                                | राशि                   | प्रतिशत    | राशि                       | प्रतिशत              | राशि                       | प्रतिशत              |
| 1                                                                                      | 2                 | 3                 | 4                              | 5                           | 6                              | 7                      | 8          | 9                          | 10                   | 11                         | 12                   |
| <b>I. राजस्व खाता</b>                                                                  |                   |                   |                                |                             |                                |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| क. प्राप्तियाँ                                                                         | 3,16,535          | 3,72,075          | 4,30,679<br>(4,29,937)         | 4,54,243                    | 5,20,147<br>(5,19,874)         | 82,168                 | 22.1       | 23,564<br>(24,306)         | 5.5<br>(5.7)         | 65,904<br>(65,631)         | 14.5<br>(14.4)       |
| ख. व्यय                                                                                | 3,77,681          | 4,08,497          | 4,55,593                       | 4,71,421                    | 5,24,658                       | 62,923                 | 15.4       | 15,828                     | 3.5                  | 53,237                     | 11.3                 |
| ग. अधिशेष(+) /घाटा(-)(I क- I ख)                                                        | -61,146           | -36,423           | -24,913<br>(-25,656)           | -17,178                     | -4,511<br>(-4,785)             |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| <b>II. पूँजी खाता *</b>                                                                |                   |                   |                                |                             |                                |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| क. प्राप्तियाँ                                                                         | 2,10,562          | 2,04,687          | 1,49,413                       | 1,59,136                    | 1,51,969                       | -45,551                | -22.3      | 9,722                      | 6.5                  | -7,167                     | -4.5                 |
| ख. संवितरण                                                                             | 1,48,342          | 1,57,805          | 1,23,299                       | 1,36,332                    | 1,43,471                       | -21,473                | -13.6      | 13,034                     | 10.6                 | 7,139                      | 5.2                  |
| ग. अधिशेष(+) /घाटा(-)(II क- II ख)                                                      | 62,220            | 46,882            | 26,114                         | 22,803                      | 8,498                          |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| <b>III. कुल प्राप्तियाँ</b>                                                            | <b>5,27,097</b>   | <b>5,76,762</b>   | <b>5,80,092<br/>(5,79,350)</b> | <b>6,13,379</b>             | <b>6,72,116<br/>(6,71,843)</b> | <b>36,617</b>          | <b>6.3</b> | <b>33,286<br/>(34,029)</b> | <b>5.7<br/>(5.9)</b> | <b>58,737<br/>(58,464)</b> | <b>9.6<br/>(9.5)</b> |
| <b>IV. कुल संवितरण</b>                                                                 | <b>5,26,023</b>   | <b>5,66,303</b>   | <b>5,78,891</b>                | <b>6,07,753</b>             | <b>6,68,129</b>                | <b>41,450</b>          | <b>7.3</b> | <b>28,862</b>              | <b>5.0</b>           | <b>60,376</b>              | <b>9.9</b>           |
| <b>V. समग्र अधिशेष (+) /घाटा(-)[ III-IV ]</b>                                          | <b>1,074</b>      | <b>10,459</b>     | <b>1,201<br/>(459)</b>         | <b>5,625</b>                | <b>3,986<br/>(3,713)</b>       |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| <b>VI. समग्र अधिशेष (+) /घाटे (-)<br/>[ V=VI(क+ख+ग) ] का वित्तपोषण</b>                 | <b>1,074</b>      | <b>10,459</b>     | <b>1,201</b>                   | <b>5,625</b>                | <b>3,986</b>                   |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| क. नकदी शेष (निवल) में वृद्धि (+)/कमी (-)                                              | -1,164            | 651               | 1,373<br>(631)                 | 1,604                       | 2,773<br>(2,500)               |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| ख. नकदी शेष निवेश खाते में वृद्धि (+) से आहरण (-) (निवल)                               | 1,778             | 8,026             | -172                           | 3,402                       | 1,263                          |                        |            |                            |                      |                            |                      |
| ग. भा.रि.बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की चुकौती(+)/ वृद्धि (-) (निवल) | 461               | 1,782             | -                              | 620                         | -50                            |                        |            |                            |                      |                            |                      |

'-' : नगण्य/शून्य

\* : (i) भारिबैंक के अर्थोपाय अग्रिम (ii) नकद शेष निवेश खाते से प्रतिभूतियों की खरीद/विक्री को छोड़कर। पूँजी प्राप्तियों में लोक-लेखा निवल आधार पर शामिल जबकि पूँजी व्यय लोक-लेखा को छोड़कर। अनुबंध III और IV की टिप्पणी भी देखें।

**टिप्पणी:** 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2004-05 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. वर्ष 2005-06 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरू किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानतः 742 करोड़ रुपए शामिल।

3. वर्ष 2006-07 (बजट अनुमान) के नीचे कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़ों में राज्य बजट में शुरू किए गए अतिरिक्त संसाधन संग्रहण उपायों से अनुमानतः प्राप्य 273 करोड़ रुपए शामिल।

4. बिहार के लिए वर्ष 2005-06 (ब.अनुमान) के आंकड़े 2006-07 के बजट के आधार पर संशोधित होने के कारण पिछले वर्ष में बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न है। बिहार के 2005-06 (ब.अ.) के आंकड़े पिछले वर्ष के अध्ययन के लेखा अनुदान पर आधारित हैं।

**स्रोत :** राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।